



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1979/फाल्गुन 26, 1900

No. 75]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1979/PHALGUNA 26, 1900

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 17 मार्च, 1979

सांकांनि० 252(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम(2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम(1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और भाग संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 1979 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "तमिलनाडु" शीर्षक और उनके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1. राज्य सरकार के अधीन अखिल पद	66
पुलिस महा-निरीक्षक	1
पुलिस अपर महा-निरीक्षक	1

पुलिस उप-महानिरीक्षक	7
पुलिस उप-महानिरीक्षक सी०आई०डी० (प्रासूचना), मद्रास	1
पुलिस उप-महानिरीक्षक, सी०आई०डी० (अपराध), मद्रास	1
पुलिस उप-महानिरीक्षक, मद्य-निषेध	1
पुलिस उप-महानिरीक्षक, सिविल पूर्ति, सी०आई०डी०, मद्रास	1
पुलिस आयुक्त	1
उप-निदेशक, सतर्कता और अण्टाचार निरोधक, मद्रास	1
पुलिस, उप-महानिरीक्षक, (प्रशासन), मद्रास	1
नागरिक सुरक्षा निदेशक और उप-महामादेशक, होम- गार्ड, मद्रास	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	2
पुलिस उपायुक्त, मद्रास	5
पुलिस अधीक्षक (जिला)	19
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अण्टाचार निरोधक निदेशालय, मद्रास	3
पुलिस अधीक्षक, क्यूं ब्रांच, सी०आई०डी०, मद्रास	1
पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी०, मद्रास	2
पुलिस अधीक्षक, वाणिज्यिक अपराध स्कन्ध, सी०आई०डी०	1
पुलिस अधीक्षक, मद्य-निषेध, मद्रास	1

पुलिस अधीक्षक, सिविल प्रूति, सी०आई०डी०	2	Deputy Inspectors General of Police	7
पुलिस अधीक्षक, सिविल प्रूति मुख्यालय	1	Deputy Inspector General of Police, CID(Crime), Madras	1
पुलिस अधीक्षक (रेलवे)	1	Deputy Inspector General of Police (CID) (Intelligence), Madras.	1
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कालेज	1	Deputy Inspector General of Police, Prohibition	1
कमान्डेन्ट्स, I, IV और V बटालियन	3	Deputy Inspector General of Police, Civil Supplies, CID, Madras.	1
पुलिस अधीक्षक, हवाई भंडा, मद्रास	1	Commissioner of Police	1
संयुक्त पुलिस अधीक्षक	5	Deputy Director, Vigilance and Anti Corruption, Madras	1
	66	Deputy Inspector General of Police (Admn.), Madras	1
2. उपर्युक्त 1 से 40 प्रतिशत के हिसाब से केन्द्रीय प्रतियुक्ति रिजर्व	26	Deputy Inspector General of Police (trg), Madras	1
3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त 1 और 2 के 33 1/3 प्रतिशत के हिसाब से	30	Director of Civil Defence and Deputy Commandant General, Home Guards, Madras	1
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर)	62	Assistant Inspector General of Police	2
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त 1 के 22.5 प्रतिशत के हिसाब से	14	Deputy Commissioners of Police, Madras	5
6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5.62 प्रतिशत के हिसाब से	3	Superintendents of Police (Districts)	19
7. कनिष्ठ पद, उपर्युक्त 4 के 23.17 प्रतिशत के हिसाब से	14	Superintendent of Police DVAC, Madras	3
8. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 11.91 प्रतिशत के हिसाब से	7	Superintendent of Police, Q. Branch, CID, Madras	1
		Superintendent of Police, CID Madras	2
सीधी भर्ती वाले पद	100	Superintendent of Police, Commercial Crime Wing CID	1
पदोन्नति वाले पद	30	Superintendent of Police, Prohibition, Madras	1
		Superintendent of Police, Civil Supplies, CID	2
कुल प्राधिकृत पद संख्या	130	Superintendent of Police, Civil Supplies Headquarters	1
		Superintendent of Police (Railways)	1
		Principal, Police Training College	1
		Commandants, I, IV and V Bns.	3
		Superintendent of Police, Airport, Madras.	1
		Joint Superintendents of Police.	5
			66

[संख्या 11052/2/79-आ० भा० मे० (II)—क]

एस०आर० वर्मा, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Department of Personal and Administrative Reforms

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1979

G.S.R. 252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulation 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 for the heading "Tamil Nadu" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

1. Senior posts under the State Government	66
Inspector General of Police	1
Additional Inspector General of Police	1

2. Central Deputation Reserve at 40% of 1 above	26
3. Posts to be filled by promotion and selection, under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, at 33 1/3 % of 1 and 2 above.	30
4. Posts to be filled by Direct Recruitment (1 and 2 minus 3 above)	62
5. Deputation Reserve at 22.5% of 4 above	14
6. Leave Reserve at 5.62% of 4 above.	3
7. Junior posts at 23.17% of 4 above.	14
8. Training Reserve at 11.91% of 4 above	7
Direct Recruitment posts	100
Promotion posts	30
Total authorised strength	130

[No. 11052/2/79-AIS(II)—A]
S. R. VERMA, Desk Officer

सांकांनि० 253(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में:—

(क) सारणी में “क—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ वेतनमान में अधिक वेतन वाले पद” शीर्षक के अधीन, प्रथम कालम की प्रविष्टि “तमिलनाडु” तथा दूसरे और तीसरे कालमों में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

पुलिस महानिरीक्षक	2500-125/2-2750
पुलिस अपर महानिरीक्षक	2250-125/2-2500
पुलिस उप-महानिरीक्षक	2000-125/2-2250
पुलिस उप-महानिरीक्षक सी०आई०डी० (आमूचना), मद्रास	2000-125/2-2250
पुलिस उप-महानिरीक्षक सी०आई०डी० (अपराध), मद्रास	2000-125/2-2250
पुलिस उप-महानिरीक्षक, मद्य-निषेध	2000-125/2-2250
पुलिस उप-महानिरीक्षक, सिविल पूर्ति, सी०आई०डी०, मद्रास	2000-125/2-2250
पुलिस आयुक्त	2000-125/2-2250
उप-निदेशक सतर्कता और अष्टाचार-निरोधक, मद्रास	2000-125/2-2250
पुलिस उप-महानिरीक्षक, (प्रशासन), मद्रास	2000-125/2-2250
पुलिस उप-महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), मद्रास	2000-125/2-2250
नागरिक सुरक्षा निदेशक तथा उप-महा समा- वेशक, होम गार्ड्स, मद्रास	2000-125-2250

(ख) सारणी में “ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पद जिसमें समय वेतनमान में वेतन के अनिवार्य विशेष वेतन वाले पद शामिल हैं” शीर्षक के अधीन, प्रथम कालम की प्रविष्टि “तमिलनाडु” तथा दूसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

पुलिस सहायक महानिरीक्षक	
पुलिस उपायुक्त, मद्रास	
पुलिस अधीक्षक (जिला)	
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अष्टाचार-निरोधक निदेशालय, मद्रास	
पुलिस अधीक्षक, क्यू ब्रांच, सी०आई०डी०, मद्रास	
पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी०, मद्रास	
पुलिस अधीक्षक, वाणिज्यिक अपराध स्कन्द, सी०आई०डी०	
पुलिस अधीक्षक, मद्य निषेध, मद्रास	

पुलिस अधीक्षक, सिविल पूर्ति, सी०आई०डी०
पुलिस अधीक्षक, सिविल पूर्ति मुख्यालय
पुलिस अधीक्षक (रेलवे)
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कालेज
कमान्डेन्ट्स, I, IV तथा V बटालियन्स
पुलिस अधीक्षक, हवाई अड्डा, मद्रास
संयुक्त पुलिस अधीक्षक।

[संख्या 11052/2/79-अ०भा०से० (II)-अ]

एम०आर० बर्मा, डैक्क अधिकारी

G.S.R. 253(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of the State of Tamil Nadu, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Third Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954:—

(a) Under the heading “A—Posts carrying pay above the senior scale in the Indian Police Service under the State Governments”, in the Table, for the entry “Tamil Nadu” occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

Inspector General of Police	2500-125/2-2750
Additional Inspector General of Police	2250-125/2-2500
Deputy Inspectors General of Police	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police CID (Intelligence), Madras	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police, CID (Crime), Madras	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police, Prohibition	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police, Civil Supplies, CID Madras	2000-125/2-2250
Commissioner of Police	2000-125/2-2250
Deputy Director, Vigilance and Anti-Corruption, Madras	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police (Admn), Madras	2000-125/2-2250
Deputy Inspector General of Police (Training), Madras	2000-125/2-2250
Director of Civil Defence and Deputy Commandant General, Home Guards, Madras	2000-125/2-2250

(b) Under the heading "B—Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments, including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale" in the Table, for the entry "Tamil Nadu", occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

Assistant Inspector General of Police.
Deputy Commissioner of Police, Madras.
Superintendents of Police (Districts).
Superintendent of Police, DVAC, Madras.
Superintendent of Police, Q. Branch, CID, Madras.
Superintendent of Police, CID, Madras.

Superintendent of Police, Commercial Crime Wing, CID
Superintendent of Police, Prohibition, Madras
Superintendent of Police, Civil Supplies, CID
Superintendent of Police, Civil Supplies Headquarters.
Superintendent of Police (Railways)
Principal, Police Training College
Commandants, I, IV and-V Bns.
Superintendent of Police, Airport, Madras
Joint Superintendent of Police

[No. 11025/2/79-AIS(II)—B]
S. R. VERMA, Desk Officer